SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

CIN: L01111MP2017PLC044596

Registered Office: "Oswal House", Opposite Balkavibairagi College, Nasirabad Highway, Village Kanwati, Neemuch MP 458441

> Tel. 07423-297511, Email id- oswalgroups2002@gmail.com Website-www.oswalseeds.com

> > Date: 08th September, 2023

To,
The Secretary,
Corporate Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051

Subject: Newspaper Advertisement-disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations")

Reference: Shreeoswal Seeds and Chemicals Limited (NSE Symbol: OSWALSEEDS, ISIN: INE00IK01029)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30, 44 and 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, we enclose herewith copies of the advertisements published in the following newspapers on 08th September, 2023 regarding Notice of the 06th Annual General Meeting of the members of the Company to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual means:

- 1. Free Press, Indore (in English)
- 2. Choutha Sansar (in Hindi)

You are requested to please take the same on record.

Thanking You,

FOR SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

SANJAY KUMAR BAIGANI CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN: 07921083

Enclosed as above



XRISM will measure the speed and makeup of what lies between galaxies

Japan joins Moon race with successful rocket launch



Japan launched on Thursday a rocket carrying what it hopes will be its first successful Moon lander

AP / Tokyo

Japan launched a rocket on Thursday carrying an X-ray telescope that will explore the origins of the universe as well as a small lunar lander. The launch of the HII-A rocket from Tanegashima Space Center in southwestern Japan was shown on live the Japan by Exploration Aerospace Agency, known as JAXA. 'We have a liftoff," the narrator at JAXA said as the rocket flew up in a burst of smoke then flew over the Pacific. Thirteen minutes after the launch, the rocket put into orbit around Earth a satellite called the X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, or XRISM, which will measure the speed and makeup of what lies between galaxies. That information helps in studying how celes-

Gets pat from ISRO

PTI / Bengaluru

ISRO on Thursday congratulated the Japan Aerospace Exploration Agency on the successful launch of Japan's lander mission to the Moon. "Best wishes for another successful lunar endeavour by the global space community,' Bengaluru-headquartered national space agency also said on 'X'.

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) on Thursday launched a rocket carrying an X-ray telescope that will explore the origins of the universe as well as the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

In fact, after the Chandrayaan-3 mission, ISRO's next likely Moon mission is in partnership with JAXA, a venture that's gathering steam.

UK to join Horizon EU science programme

London: Britain is rejoining the European Union's sciencesharing program Horizon Europe, the two sides announced on Thursday, more than two years after membership became a casualty of Brexit. British scientists expressed relief at the decision. the latest sign of thawing relations between the EU and its former member. After months of negotiations, the British government said the country was becoming a "fully associated member" of the research collaboration body UK-based scientists can bid for Horizon funding starting Thursday and will be able to lead Horizon-backed science projects starting in 2024.

Date: 08.09.2023

Place : Ujjain, Madhya Pradesh

hopefully can lead to solving the mystery of how the universe was created, JAXA

cooperation with NASA, JAXA will look at the wavelengths, the temperature of things in space and

David Alexander, director of the Rice Space Institute at Rice University, believes the mission is significant for delivering insight into the properties of hot plasma, or the strength of light at different superheated matter that makes up much of the uni-

Western Railway - Ratlam Division

COMMERCIAL DEPARTMENT E-AUCTION

E-Auction for the contract of Non Fare Revenue (NFR) at various location of Ratlam Division has been invited. The Catalogue has already been published on IREPS website. The details are furnished as under. Catalogue No.: ADVT-RTM-Demu-6, Type of Contract: Non Fare Revenue

(NFR), Lot No.: ADVT-EFF-183728-23-1 (Advertising - Train Exterior (Full Face), Contract Period: 5 years, E-Auction for all Lots will start at 11:00 hours of 25.09.2023. Initial cooling off period is 30 minutes. Successive Lot closing Interval is 10 minutes. Lot wise closing time can be viewed in E-Auction module of IREPS.

For Sr. Divisional Commercial Manager Western Railway, Ratlam

SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

CIN: L01111MP2017PLC044596 Website: www.oswalseeds.com Registered Office: Oswal House", Opposite Balkavibairagi College, Nasirabad Highway, Village Kanwati, Neemuch-458441 (M.P.)
Tel. +91-7423-297511, Email id - oswalgroups2002@gmail.con TICE OF 06TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED THROUGH VIDEO

CONFERENCING ("VC") AND OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

This is in continuation to our earlier paper publication dated 30th August, 2023 whereby Members of the Company were informed that in compliance with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Board of Directors decided to convene the O6th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Saturday, 30th Day of September 2023 at 2.00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice dated 14th August, 2023. The said MCA & SEBI has granted relaxations to the Companies, with respect to printing and dispatching of physical copies of Annual reports to Shareholders.

The Notice of 06th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Yea ended 31st March, 2023 along with login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on Wednesday, 06th September 2023 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars and the same are also available on Company's website (www.oswalseeds.com), Stock Exchange website i.e. National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.evotingindia.com).

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations and other applicable rules framed there under that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 25th Day of September, 2023 to Saturday 30th Day of September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 06th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice dated Monday, 14th August, 2023 of the 6th AGM by electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows:-

- The business will be transacted through voting by electronic means.
- Date and time of commencement of remote e-voting: Wednesday, 27th September, 2023 from 09.00 A.M.
- Date and time of end of remote e-voting: Friday, 29th September, 2023 at 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Saturday 23rd September, 2023.
- Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and Password by following the procedure mentioned in the
- 6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Friday, 29th September, 2023 the facility shall forthwith be blocked.
- The facility for voting through electronic means shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting B. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Saturday 23rd September, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue.
- 10. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently
- The Notice of the 06th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 is also available on the Company's website www.oswalseeds.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.
- 12. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to Ipdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

By order of the Board FOR SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

ACS-34566

Dilip Patidar Date: 07th September, 2023 Company Secretary and Compliance Officer

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) | CIN : L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031 Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Place: Neemuch



NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

ed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erst Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the entioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to dhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as pe the RBI quidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as pe contractual rate with effect from their respective dates.

S	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers		Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
	38985981	Loan Against Property	Jagdish Chita Ji Savantra Bai	12.07.2023	2,34,942.84/-	All That Piece And Parcel Of House No. 157, Situated At Survey No. 209, Ward No. 07, P.H.No 12, Gram: Jhumki, Tehsii: Tarana (Makdon), District: Ujjain, Madhya Pradesh - 456668, Total Area 2400 Sq. Ft., And Bounded As: East: Common Road, West: House Of Shivnarayan, North: House Of Badrilal. South: House Of Radheshyam

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against th mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited <mark>amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)</mark> . Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise

> **Authorized Office** IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited

Kamala Harris says 'ready to assume Presidency if...'

SHANKAR RAJ / Washington

At a time when President Joe Biden's popularity is at its lowest among voters in the US, Vice President Kamala Harris stirred a controversy by saying

that she "may have to take over" if President Biden is unable to complete his term in office—and that she's ready to do so if required.

The latest poll by CNN shows Biden faces negative job rat-

ings and concerns about his age as he gears up for 2024. But the ratings of Harris are further down in popularity. If Biden ultimately exits the 2024 campaign, Harris' vulnerability is expected to unleash a con-

tested Democratic primary, according to reports.

Harris was cornered by a reporter who asked her about her readiness for the Oval Of-

Biden's legislative accomplishments. She said an important part of her job is the fact that she "may have to take over" if President Biden is unable to complete his term in office. She initially tried to deflect a question by pointing to

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Circle SASTRA Center Ujjain B-13/1, 13/2, 1st Floor, Mahakal Vanijya Kendra Nanakheda, Ujjain, (M.P.), 456010 Email: cs8329@pnb.co.in, Mo. 7698752752

PUBLIC E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Punjab National Bank (The Secured Creditor) and physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Punjab National Bank (The Secured Creditor) on the dates mentioned against them, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 28.09.2023, from 11.00 AM to 04.00 PM, for recovery of its dues due to the

	DATE AND TIME OF E-AUCTION	DN: 28.09.2023 BET. 11.00 AM TO 04.00 PM (EXTENSION	OF 10 MINUTES	WILL BE GIV	EN, IF N		
S. No.	Name of Borrowers/ Branch	Detail of Property & Name of the owner / Mortgagor	Secured Debts	Date of Demand Notice Date of Possession	Reserve Price (Rs. in Lac)	Earnest Money Deposit (Rs. in Lac)	bid amoun
1	Ishape Appliances Pvt Ltd. Branch : Dewas Bajrangpura - 1505	EQM over Diverted Land along with construction thereon situated at Survey No. 120/1(part) after sub division New No.120/3, Village - Kalukhedi, Patwari Halka No. 19, Tehsil & District - Dewas (Madhya Pradesh): Area: - 0.598 Hectare. Bounded by: East- Parisar of Steel tubes of India, West- Common Road and Open Land North-Open Land South- Land of Survey no. 120/5(Land of M/s Nik Cool i.e. M/s Ishape Appliances Pvt Ltd) Owner:- M/s Sheetal Enterprises (Symbolic possession.)	₹ 12,82,17,077.85 + Interest & other Charges	07.07.2021 14.09.2021	158	15.8	0.5
		EQM over Diverted Land along with construction thereon situated at Survey No. 120/3 (part) after sub division New Survey No.120/5, Village Kalukhedi, Patwahi Halka No.19, Tehsil & District - Dewas, (Madhya Pradesh): Area: - 0.300 Hectare along with 11298 Sq ft. construction thereon. Bounded by: East- Steel tubes, West-Approach Road and Open Land, North- Remaining Land of Sheetal Enterprises, South- Steel tube proposed road, Owner:- M/s Ishape Appliance Pvt. Ltd. (Previously M/s. NIK Cool) (Symbolic Possession)			141	14.1	0.5
		EQM over Diverted Land situated at survey No. 122/1 (part) after sub division new survey No.122/1/Min-2, Village - Kalukhedi, Patwari Halka No.19, Tehsil & District - Dewas, (Madhya Pradesh): Area:- 0.306 Hectare Bounded by: - East- Land of Steel tubes, West- Other Agriculture Land North- Road, South- Other Agriculture Land Owner:- M/s Automech Ancillaries Industries. (Symbolic Possession)			199	19.9	0.5
2	Atmaram Parmar S/o Bherulal Branch : Shajapur-6592	All that part and parcel of residential House on Plot No. 52, Survey No.176 min, Ward No. 26, Ahmad Nagar, Village Magariya, Shajapur, (M.P), Area - 600 Sq Ft.: Bounded by: North: House of Sunil Rathore, South: House of Akil Bhai, East: House of Ansari, West: Gali No.1 Road Owner - Shri Atmaram Parmar S/o Bheru Lal (Physical Possession)	₹ 20,64,263.54 + Interest & other Charges	17.09.2021 29.12.2021	22	2.2	0.2
3	Bangulamukhi Warehouse Branch : Pachlana (Dist-Shajapur)- 2571	All that part and parcel of the property consisiting of Land Khasra No.342,343,357 Village Bhaisoda, Tehsil=Nalkheda, Dist-Agar, Area = .0.81 Hect, Boundaries: For khasra no. 342 North: Land of Jainarayan Ji Kulmi, South:Land of Roadmal ji Kulmi, East:Land of seller, West- Nalkheda Bhaisoda Road, For Khasra no. 357 North-Land of Ramkaran Kulmi, South-Land of Kailash ji Kulmi, East-Seller's land, West-Land of seller, Roadmal and Jainarayan, Owned by Arti Devi W/o Kaluram (Symbolic Possession)	₹ 1,26,69,613.92 + Interest & other Charges	02.07.2021 15.11.2021	258.77	25.87	0.5
4	Maa Chamundeshwari Stone Crusher, Prop - Shri Jaynarayan S/o. Shri Panna Lal Yadav ; Guarantor - Smt. Dev Bai W/o. Shri Gopal Patidar Branch : Pachlana (Dist-Shajapur)-2571	All that part and parcel of the property consisting House No.35, Ward No.1, Near Gandhi Chowk, Badagaon, Tehsil - Nalkheda, District - Agar. Area: 1035 Sq Ft.; Bounded by: East - House of Abbasakha, West - House of Jai Narayan Mali, North - House of Gopal Patidar, South - Aam Rasta (Gali). Owner-Devbai W/o Shri Gopal Patidar (Symbolic Possession)	₹ 19,92,821.00 + Interest & other Charges	05.05.2022 16.07.2022	14.5	1.45	0.50
5	Shri Tej Kumar S/o Shri Motilal Prajapati Branch : Shajapur-6592	Residential building at survey No.171 Indira Nagar, Village Magriya, Shajapur Tehsil and District Shajapur. Area: 1196 Sq. Ft. Owned by Tej Kumar Prajapati, Bounded by: On North: House of Madanlal, On South: Road, On East: Road, On West: Road.465001 (Symbolic Possession)	₹ 15,37,382.00 + Interest & other Charges	10.08.2021 29/12/2021	18.45	1.8	0.18
6	M/s Keshav Roadlines: Prop: Sh. Shailendra Kumar Sangte S/o Sh. Shantilal Sangte; Guarantor - Late Smt Vimala Sangte W/o Sh. Shantilal Sangte (deceased) through its legal heirs, 1. Sh. Shantilal Sangte, 2. Sh. Shailendra Sangte S/o Sh. Shantilal Sangte, 3. Sh. Jitendra Sangte S/o Sh. Shantilal Sangte, All are resident of 11, HIG Nagar Senior, Mukharjee Nagar Dewas, 4. Smt. Vijaya Dholpure W/o Sh. Sanjay Dholpure, Resident of 375, Lala ka	All that part and parcel of the property situated at House No.11 HIG, Senior Mukharjee Nagar, Teh. & Distt Dewas (M.P.) 455001 Area: 210.60 Sq. Mt., Bounded by: East: House No. 35 EWS and No.36 EWS, West: MR 30 Mt., North: House No. 10 HIG Sr., South: House No. 12 HIG Sr. Owned by Late Smt. Vimala Sangte W/o Sh. Shantilal Sangte (Deceased) (Symbolic Possession)	₹ 57.87 Lakh + Interest & other Charges	08.01.2018 14.01.2019	58	5.8	0.50
7	Bagicha, Malwa Mill, Indore (MP) and other legal hairs if any Branch: Dewas Bajrangpura - 1505 Mohammad Iqbal S/o Ramjan (Borrower) Mr. Farooq Chhipa (Joint Applicant), Mrs. Rafiya Chhipa (Joint Applicant),	All that part and parcel of the property consisting of House situated at Ground Floor of MU No-31 part property- 31/2, Nolaipura, Ratlam (M.P) - 457001, Area:-373.54 sq ft. Bounded by: North: House of Chipa ji, South: House of Ayyub Manihar ji, East: Main	₹ 54,55,793.73 + Interest &	22.06.2021 12.10.2021	65	6.5	0.5
8	Mr. Irfan Chhipa (Joint Applicant) Branch : E-OBC Ratlam (031310) Shri Ashok Kumar Vijayvargiya S/o. Shri Chironjilal Vijayvargiya Branch : Shujalpur - (683000)	Road, West: Street. Owner: Mr. Mohammad Iqbal S/o Ramjan ji, Mr Farroq chippa S/o Ramjan Ji and Mr. Irfan Chhipa S/o Ramjan (Symbolic Possession) All that part and parcel of the property consisting of Residential Plot Situated at D 26 & D 27, Part of Kh.No-992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994,995/1, 996/1, 1000/1, P.H.No-27, Gokulvrindavan City, Village-Kishoni, Tehsil- Shujalpur, Dist. Shajapur(M.P.), Acc. 1200 Sc. H. Owner, Shi Jack Kwishi Shujalpur, Dist. Shajapur(M.P.), Acc. 1200 Sc. H. Owner, Shi Jack Kwishi Shi Jack Jack Jack Jack Jack Jack Jack Jack	other Charges ₹ 16,09,969.00 + Interest &	18.09.2021 15.12.2021	6.75	0.68	0.07
9	1.M/s Aleesha Trading Company (Prop Shadma Zaidi W/o Syed Aleem Haider Zaidi), Gurantor-Syed Aleem Haider Zaidi S/o Syed Wali Haider Zaidi A/c No-0643008700000929, 2.Syed Aleem Haider Zaidi S/o Syed Wali Haider Zaidi (Borrower) & Shadma Zaidi W/o Syed Aleem Haider Zaidi (Co-Borrower), Kavindra Singh (Guarantor) A/c No-064300NC00000141, Branch: Doraha 064300	Area-1200 Sq.ft. Owner - Shri Ashok Kumar Vijayvargiya, Bounded By: East: Plot No.28, West: Plot No.25, North: Land of Mahendra, South: Road (Physical Possession) All that part and parcel of the property consisting of Commercial cum Residential Double storey Flat No-314 & 315, Part of Khasra No-409, 410, 1598/408, 1599/408, Third Floor (Lease Hold),ward no-18 & 19, Bhopal Plaza, Near Bhopal Talkies, Hamidia Road, Bhopal, M.P. Area-958 sq. ft. Bounded by: East:-Flat No-313, West-Flat No-316, North:-Flat No-311, South- Road Owner:-Mrs Shadma Zaidi & Mr. Syad Aleem Haider Zaidi (Symbolic Possession)	other Charges ₹ 32,04,982.90 + Interest & other Charges	24-08-2021 17-03-2022	30.65	3.065	0.50
10	M/s Mahalaxmi Investment & Trading Pvt Ltd, Directors: Mr Trilok Kumar Jhalani, Mr. Jayesh Kumar Jhalani, Mr. Premraj Jhalani, Guarantors: Mr. Nilesh Jhalani, Mr. Naresh Jhalani, Mr. Indranarayan Jhalani, Mr. Indranarayan Jhalani, Mr. Divik Jhalani, Mr. Divik Jhalani, Mrs. Jayshree Jhalani, Mrs. Jayshree Jhalani, M/s Kaushika Electronics, M/s Shriram Envopak Pvt Ltd, M/s Shri Ram Technika Proprietor - M/s MITPL, M/s Shriram Switchgear Maharashra, M/s Urban Development Pvt Ltd,	All that part and parcel of the property consisting of Land and Building, Plant and machinery situated at Plot No7/ C-2 Industrial Estate Ratlam M.P. Area:18090 SqFt., Bounded by:- North: Road, South: Open land and Shed No C-2, East: Main Road, West: Slide no C-1, C-9, Owner: Mahalaxmi Investment & Trading Pvt Ltd. Unit 2 Director- Mr Jayesh Jhalani S/o Chaitanya Kumar Jhalani (Symbolic Possession)	₹ 2336.77 Lakh + Interest & other Charges	15.03.2022 02.07.2022	141	14.1	1.0
11	Branch : Ratlam Dhanmandi- 040900 Mr. Keshav Dev S/o Shymlal Sharma Branch : Alkapuri Ratlam-324100	All that part and parcel of the property consisting of House No. HX-20 HIG, M.P. Housing Board Colony Alkapuri Ratlam, Tehsil & District -Ratlam (M.P.) Area: 133.25 Sq.Mtr. Bounded by: East: Nala and Road, West: Road, North: H.NOHX-21, South: H. NoHX-19. Owned by: Mr. Keshav Dev S/o Shyamlal Sharma (Symbolic Possession)	₹ 40.69 Lakh + Interest & other Charges	06.07.2021 02.11.2021	52	5.2	0.50
12	Atul Singh S/o Devendra Singh Gangwar Branch : Ratlam Dhanmandi- 040900	All that part and parcel of the property consisting of Plot and House on part of Mu. No13/131/53. In Gali no. 01 on Jaora Road situated at Bohre Ki Chal, Ratlam (M.P.). Area- 270 Sq.ft., Property Owner: Mr. Atul Singh S/o Mr Devendra Singh Gangwar, Bounded by: North: 15'-00" wide Road, South: House of Jaganprasad Ji, East: House of Kosar Bano, West: House of Kailash Ji Borasi (Physical Possession)	₹ 13.72 Lakh + Interest & other Charges	09.06.2021 22.11.2021	18	1.8	0.25
13	Shri Ramlaxman Dhakad S/o Shri Bapulal Dhakad Branch : Ratlam Dhanmandi- 040900	All that part and parcel of the property consisting of Residential Plot Survey No 136/32 PE, Behind Shahid Bhagat Singh Nagar, Gram – Viriyakhedi, Ratlam, M.P.; Area – 127.67 Sq Mtr. (1373 Sq. Ft.), Owner - Smt. Sanjana Rathore W/o. Shri Bharat Lal Rathore, Bounded By: East: Back Lane, West: Road, North: House of Shakti Nagar, South: House of	₹ 15.57 Lakh + Interest & other Charges	11.02.2016 29.04.2016	20.6	2.06	0.25

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE:- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions (1) The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". (2) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. (3) The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on 28.09.2023 @ 11.00 AM to 04.00 PM. (4) For detailed common term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, or contact to us on Mob. No. 7698752752. (5) The successful bidder shall have to deposit 25% of successful bid within 24 hours of bidding & Rest 75% of the successful bid amount must be deposited within 15 days from the date of successful bidding. In case of default to deposit these amount within the prescribed period, the entire amount/amounts deposited by the bidder will be forfeited and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. (6) Above auction will be held through https://www.mstcecommerce.com portal and interest bidder have to register themselves on portal (https://www.mstcauction.com) using their mobile number and email-id At their own expenses and have to create their WALLET & have to deposit their EMD and rest amount of bid by Cash/Transfer/Neft in their wallet. (7) The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-auction without assigning any reason thereof. (8) Inspection of the property can be done on 26.09.2023 at 11:00 AM to 04:00 PM (9) The bid will be accepted only if at least one incremental amount is added to the reserve price.

Date: 08.09.2023, Place: Ujjain Authorised Officer, Punjab National Bank

सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस ने बंद की थी बीजेपी की योजनाएं भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर की जा रही है। बीजेपी की जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की जनआक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की तर्ज पर ही कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है। जन आक्रोश यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। सीएम शिवरा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जिन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वह जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पडेगा। वह आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस आक्रोश यात्रा इसलिए निकल रही है कि भाजपा की ओर से जो जनहित की योजनाएं शुरू की थी। उसे कांग्रेस ने बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी गई थी। छात्रों को राशि नहीं दी गर्ड थी। इसलिए जनता में आक्रोश हैऔर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जन आशीर्वाद यात्रा के समापन कही तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर बड़ा आयोजन होगा। 25 सितंबर को राजधानी भोपाल के जंबरी यात्रा में मैदान में यात्राएं संपन्न होंगी। वीडी शर्मा कहते हैं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ता महाकुंम का आयोजन होगा।



पीड़ित मानव की सेवा दिवस के रूप में मनाया पं. नागर का जन्मदिन

आष्टा, (निप्र)। पीडित मानव की सेवा भगवान की भक्ति से बढ़कर होती हैं। सनातन एवं हिंदू धर्म के हमारे पौराणिक शास्त्र पीडित व्यक्ति की सेवा को ईश्वर की भक्ति से बढकर मानते हैं। ईश्वर ने यदि हमें मानव शरीर दिया हैं तो उसे परोपकार एवं पीडित मानवता की सेवा में लगाकर जीवन को कृतज्ञ करें। पंडित कमल किशोर जी नागर ने जिस तरह से अपने संपूर्ण जीवन को मानव सेवा एवं गौसेवा के रूप में व्यतीत कर सेवा का जो संदेश दिया हैं उसे अपने जीवन में भी आत्मसात करें. इस आशय के संकल्प मालव माटी के प्रसिद्ध संत पंडित कमल किशोर जी नागर के जन्म दिवस पर उनके भक्तो ने स्थानीय शासकीय सिविल अस्पताल में उपचाररत मरीजो को फल एवं दूध वितरण कर लिए। विदित हो कि पंडित कमल किशोर जी नागर के जन्म दिवस पर उनके भक्तगण पिछले कई वर्षो से सिविल अस्पताल आष्टा में मरीजो का फल एवं दूध वितरित करते हैं।

भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी - विधायक भार्गव

विदिशा, (निप्र)। भारत जोड़ो यात्रा पहले

का १ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विदिशा शहर व ग्रामीण द्वारा गांधी प्रतिमा नीमताल से पदयात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस गांधी प्रतिमा पर आकर समाप्त हुई। यात्रा की शुरूआत में विधायक शशांक श्रीकृष्ण मार्गव एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यात्रा तिलकचौक.निकासा.माधवगंज. हॉस्पिटल रोड़ होते हुए वापिस नीमताल पहुंची। यात्रा के आगें डीजे वाहन पर मारत जोड़ो यात्रा से जुड़े गीत चल रहे थे। कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। दो-दो की कतार में यात्रा में शामिल कांग्रेस

कार्यकर्ता जोड़ो-जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा के समापन पर नुक्कड़ समा का आयोजन किया गया। जिसे संबोधित करते हुए विधायक शशांक श्रीकृष्ण मार्गव ने कहाँ कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी जी की ४०८१ किमी लंबी तपस्या, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। भारत जोड़ो यात्रा जहां भी गई, इसने दिल जीत लिया और भाजपा-आरएसएस को सत्ता से बाहर करने की उलटी गिनती शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा हर मारतीय को तब तक प्रभावित करेगी, जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती और बेजुबानों को आवाज नहीं मिल जाती। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी आर्थिक असमानताओं, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, संविधान की तोड़फोड़, सत्ता के केंद्रीकरण के वास्तविक मुद्दों को लोगों की कल्पना के केंद्र में लाना चाहते थे जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई है।

मुख्यमंत्री निवास पर पत्रकार समागम कार्यक्रम

कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा

चौहान ने कहा कि अधिमान्यता

प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण

ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत

अधिकतम ऋण की सीमा को 25

लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए

किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार

के बेटे और बेटियों की शिक्षा के

लिए अगर कोई बैंक से लोन

लेता है तो 5 साल तक राज्य

सरकार उस ब्याज पर 5 प्रतिशत

छोटे शहरों के पत्रकारों

को दिया जाएगा

प्रशिक्षण

को आवश्यकता के अनुसार

भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता

का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा

यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुवेदी

विश्वविद्यालय के सहयोग से

दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों

को जमीन देकर उनके लिए

कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी।

दिनांक: 06/09/2023

निविदा की

अंतिम तिथि

21.09.2023

05.10.2023

5:30 PM

मांग सूचना

दिनोंक

सिटी इंजीनियर

नगर पालिक निगम, इन्दौर

निविदा प्रपत्र का

₹ 2,000/

₹ 10,000/

₹ 2,000/

₹ 8.000/

लासिया (2135) शाखा: 55/4, न्यू पलासिया

एसआरएल डायग्रोस्टिक, इन्दौर (म.प्र.)

फोन: 0731- 2431022 एवं 2541021

e-mail- iob2135@iob.in

बंधक संपत्ति का विवरण

इन्दौर डेवलपमेंट ऑथोरिटी स्कीम नं.

. 136, सेक्टर-ए-2, प्लाट नं. 560

वर्गमीटर भूमि, चर्तुःसीमाः दक्षिण-पूर्वः

प्लाट नं. 605, स्कीम नं. 136, **उत्तर-**

पश्चिम: सड़क, दक्षिण-पश्चिम: प्लाट नं.

559, स्कीम नं. 136, **उत्तर-पूर्व:** प्लाट

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

+ 22.08.2023 मालिक: श्रीमती संगीता यादव पति 23.08.2023

20.07.533.00 (रहवासी), इन्दौर (म.प्र.) - 452001,

से ब्याज + अन्य खर्च अनील यादव, कुल क्षेत्रफल: 53.325

नं. 561, स्कीमनं. 136

एवं

छोटे कस्बों.शहरों के पत्रकारों

अनुदान देगी।

पत्रकारिता

■ सीएम शिवराज ने की मीडियाकर्मियों के लिए कई घोषणाएं

■ सुरक्षा के लिए बनेगा कानून, सम्मान निधि भी दोगुनी की

अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों के एजुकेशन लोन का ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार समागम में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में अनुदान दिया जाएगा।

अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों के एजुकेशन लोन का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। वे जनता की आवाज को सबके सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की

Change of name

Previously I was known as Chetan Kumar Soni S/O Banshi Lal Soni R/O 64, Swami Vivekanand Nagar Kanadia Road Indore but now I have changed my name as Chetan Soni . So Chetai Kumar Soni & Chetan

Soni is one and the same person. I am responsible for any consequences

https:/mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

करने संबंधी कार्य।

प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर

दंड व सजा का प्रावधान है।

प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3(1) अंतर्गत नोटिस

वर्णित संपत्ति इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा बंधक रखी गई है।

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार

का नाम एवं पता

09, विष्णु विहार, नीला आकाश स्कूल के आगे

इसके अलावा: आईडीए स्कीम नं. 136, प्लाट

09, वैष्णव विहार, स्कीम नं. 51, तिगरिया

रोड, इन्दौर सिटी, इन्दौर (म.प्र.) 452002

इसके अलावा: आईडीए स्कीम नं. 136, प्लाव

तहत उन्हें सजा और या जुर्माना का प्रावधान है।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 08.09.2023

नं. 560, सेक्टर ए-२, इन्दौर - 452001

नं. 560, सेक्टर ए-2, इन्दौर - 45200 1

श्री अनील यादव पिता फलचंद यादव

श्रीमती संगीता यादव पति अनील यादव

तिगरिया रोंड, इन्दौर (म.प्र. 452015)

टेण्डर क्र.

जारी दिनांक

2023-UAD-

06-09-2023

2023-UAD-

305481

06-09-2023

समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा



पहल की जाएगी। बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानुन के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नीध्पति को एकमुश्त आठ लाख रुपये दिए जाएंगे।

आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपये की

<u>मुख्यमंत्री शिवराज सिंह</u>

बीमा की बढ़ी हुई राशि सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढोतरी की है। बढी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान ;सामान्यद्ध 20 हजार से

बढाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा।

> स्टेट मीडिया सेंटर होगा खास

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी। यहां पत्रकार बंधुओं के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्थाए लाइब्रेरीए कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्यालय छावनी परिषद् मह्

पीट रोड स्लाटर हाऊस के पास स्थित नॉनवेज मार्केट केवल 05 वर्ष की लीज अवधि पर निलाम किये जाने की सार्वजनिक सूचना

कार्यालयीन पत्र क्रमांक सीबीमह् / 7412 / राजस्व / मटन मार्केट दिनांक 18.08.2023 से समाचार पत्र मे प्रकाशित पीट रोड स्लाटर हाऊस के पास स्थित नॉनवेज मार्केट की जगह को 05 वर्ष की लीज अवधि पर निलाम किये जाने की सार्वजनिक सूचना प्रकाशन में निविदा प्राप्त करने की दिनांक 12.09.2023 व सीलबंद निविदा जमा करने की दिनांक 13.09.2023

नागरिको की सुविधा को ध्यान में रखते हुऐ निविदा प्राप्त करने की दिनांक 25.09.2023 व सीलबंद निविदा जमा करने की दिनांक 26.09.2023 किया जाता है। नियम व शर्ते पूर्व के अनुसार ही रहेगी। निविदा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने लिए छावनी परिषद, महू की वेबसाईट https://mhow.cantt.gov.in व पूर्व में प्रकाशित निविदा सूचना के द्वारा प्राप्त की जा सकती है तथा छावनी परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय व दिवस में भी प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,

कार्यालय मारूति साख सहकारी संस्था मुर्या. मनावर जिला धार (म.प्र)

पंजी के DR/DHR/2936 दिनांक 21.10.2019 क./आमसभा/2023-24

आमसभा की सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

विद्युत विभाग

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फमों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https:/mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से

मांग सूचना

(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) सपठित

(2) **इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के नियम-3 के साथ पठित सेक्शन

13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / जमानतदारों को अधिनियम की

धारा 13(2) के अन्तर्गत डिमांड नोटिस जारी किया गया एवं डिमांड नोटिस की दर्शायी गई निम्न वर्णित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की

तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए पंजीकृत डांक द्वारा भेजा गया था। उपरोक्त नोटिस पंजीकृत डांक द्वारा ऋणि को भेजा था

जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इस प्रकाशन के द्वारा नोटिस देते हुए आप संबंधितों को अवगत किया गया है। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

नोटिस को ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदारों के पूर्व ज्ञात पतों पर अधिनियम की धारा के अन्तर्गत नोटिस चिपका दिए गए है।

(3) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उधारकर्ता / बंधककर्ता / जमानतदारों को इस नोटिस प्रकाशन के 60 दिनों की अविध में इंडियन ओवरसीज

बैंक को बकाया राशि एवं उस पर निम्न वर्णित दिनांक से देय ब्याज तथा अन्य खर्चें जमा करने हेतु दिया जाता है। ऋण के पुर्नभुगतान हेतु निम्न

ऋणी /बंधककर्ता /जमानतदार विस्तृत मांग नोटिस की प्राप्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्राप्त कर सकते है ।

बकाया राशि (रु.)

' ऊपर उल्लेखित तारीख से सहमति के आधार पर अनुबंधित दरों / छूट पर आगे भुगतान की तिथि तक ब्याज देय ।

कोई भी अधिकारी का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित बंधक संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

धारा (13) एवं उपधारा ८ के प्रावधानों तहत आकर्षित किया जाता है।

(4) यदि इस मांग सूचना पत्र के उपरांत भी ऋणी/जमानतदार निर्धारित अवधि में ऊपर वर्णित बकाया राशि तथा भविष्य की अवधि का

ब्याज, का पूर्नभुगतान करने में असफल रहते है तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त समस्त अथवा

(5) ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (redeem कराने) के संबंध में अधिनियम की

(6) ऋणी तथा जमानतदार को यह भी सूचित किया जाता है कि सरफसी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वे उपरोक्त वर्णित

. संपत्ति जो कि **इंडियन ओवरसीज़ बैंक** के हित में प्रतिभूत की गई है को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, किरायेनामें या

अन्य प्रकार के अंतरित नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम की धारा 29 के

विज्ञप्ति क्र.: 34/23-24/ई टेण्डर C.E/E&M विविदा सूचना

कार्य का नाम

झोन क्रं.11 के अंतर्गत मेयर निवास पर विद्यतीकर

झोन क्रं. 07 वार्ड क्रं. 34 के अंतर्गत खेडापति सरकार

उद्यान में डेकोरेटिव पोस्टाप, डेकोरेटिव पोल, रिंगपोल

एल.ई.डी. व केबल इत्यादि लगाकर प्रकाश व्यवस्थ

INDIAN OVERSEAS BANK

इण्डियन ओवरसीज बैंक

संस्था के संकल्प क्रमांक 02 दिनांक 06.09.2023 अनुसार संस्था के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था का वार्षिक व्यापक सम्मेलन (आमसभा) दिनांक 23.09.2023 वार शनिवार को समय 11:30 बजे संस्था कार्यालय मण्डी कॉम्प्लेक्स धार रोड मनावर में आयोजित की गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थीनय है। कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनिट स्थगीत कर नियत स्थान पर पुनः नियमानुसार प्रारम्भ की जावेगी ।

(म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के तहत) (1) आगामी वित्तय वर्ष 2023-2024 के लिये बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृति ।(2) संपरिक्षा रिपोंट वर्ष 2022 2023 का अनुमोदन ।(3) संस्था का वर्ष 2023-2024 का अंकेक्षण कराने बाबद विचार । (4) प्रबंधकार्यकारिणी बैठको एवं विगत आमसभा की कार्यवाही का अनुमोदन ।(5) बजट से अधिक व्ययों का अवलोकन एवं स्वीकृति ।(6) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

अध्यक्ष मुकेश बागेश्वर अध्यक्ष मारूतिँ साख सहकारी संस्था मर्या.

हार्य की समयावधि

₹ 9,93,555/

2 माह

₹ 10.57.712/-

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक INDLP080723162/दिनांक/06/SEP/2023

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 (3) के अधीन दी गई अनुज्ञा

में उपातरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु जनसामान्य की जानकारी हेत एतद द्वारा यह अधिसुचित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती / मेसर्स (shubhashchandra seth) - shri shubhashchandra seth s/o gendalal seth द्वारा . नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है:-

(क) परियोजना का नाम :- SETH HOUSE

(ख) अवस्थित (अवस्थित / ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक):- पूर्व स्वीकृत ग्राम Musakhedi तहसील Indore व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक 453/3, 453/4, कुल रकबा 0.094 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL, SEFI HOUSE विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है

(ग) विकास का प्रयोजनः -RESIDENTIAL, SEFL HOUSE (घ) स्वीकृति क्रमांक INDLP 4324 दिनांक 2018-08-01 पर्व स्वीकत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता हैं. तो उससे परियोजना से जडे व्यक्ति/संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति,उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति

या सुझाव, इस सचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/web/objection.aspx?RefApp=VjjoxDdRrf प्र प्रस्तुत कर हितबतद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://dtcp.mp.gov.in/alpass/web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

संयक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला इन्दौर (म.प.)

Ranjit securities LTD.

CIN: L67120MP1994PLC008680 Regd. Off.: 317-318, Transport Nagar, Scheme No. 44

Indore-452014 (M.P.), Phone: 0731-4084845

NOTICE OF 29th AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of M/s. Ranjit Securities Limited will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 A.M. at Registered Office of the Company, 317-318, Transport Nagar, Scheme No. 44, Indore (M.P.) - 452014 to transact the business as contained in the

Further Notice is hereby given that: (a) Members may vote for the resolutions as set out in the notice of the aforesaid Annual General Meeting through voting by remote-electronic means;

(b) The remote e-voting shall commence on Tuesday, 26th September, 2023 (9:00 A.M) and ends on Thursday, 28" September, 2023 (5.00 P.M.). The e-voting module shall not be allowed beyond Thursday, 28" September, 2023 (5.00 P.M.).

(c) The cut-off date is fixed on Friday, 22nd September, 2023 for eligibility participation and vote by remote e-voting or vote by Poll at the AGM to the members whose names are registered in the Register of Members or in the record of the CDSL and/or NSDL as the beneficiary of the Company;

(d) A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date 22rd September, 2023 can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an e-mail to compliance@ranjitsecurities.com or info@unisec.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentionin their Folio No./DPID and Client ID No. However, if such shareholder is alread registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and passworn the control of the control of

can be used for casting your vote. (e) Mr. Gauray Agrawal (FCS No: 11498, CP No: 16822) Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinizing the remote e-voting process and voting by poll at the venue of AGM in the fair and

(f) Members may note that: The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; ii. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the

iv. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 22rd September, 2023, only shall be entitled to the facility of remote e-voting as well as voting for detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "NOTES" in notice of the

AGM.

V. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Ltd. Unit No. A-2501, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai, MH 400013 or send an e-mail to helpdesk evoting@costslindia.com or call on toll free no. 1800.225533 helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33

Further Notice is given that: Pursuant to the Provisions of S Pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Register of Members and Share Transfer Book shall remain closed from Saturday, 23^{st} September, 2023 to Friday, 29^{th} September, 2023 (inclusive both days) for the purpose of the aforesaid Annual General meeting. For Ranjit Securities Limited

CS Sandeep Nema
(Company Secretary cum Compliance Officer)

भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ 25 सितंबर को, सीएम शिवराज ने किया भूमिपूजन

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा 25 सितंबर को सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यकर्ता महाकुंभ का गुरुवार को जंबुरी मैदान में भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। यहां मंत्रों के साथ कार्यक्रम स्थल पर भूमिपूजन के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि यहां पर पांचों जन आशीर्वाद यात्राएं महाकुंभ में शामिल होंगी।

प्रीमियम केपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L67120MP1992PLC007178 राजाश्वर । L07120mr 1932r LC007176 पंजीकृत कार्यान्य: 40 1 , स्टारिलेट टॉवर, 4थी मंजिल, 29 , वाई एन रोड, इंदौर – 452 003, मध्य प्रदेश, भारत सम्पर्क नं : +91 (0731) 2536127, +91 (0731) 243334

कंपनी की 3 1वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, कट तिथि और ई-वोटिंग इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि, ग्रीमियम केपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड केसदस्यों की इक्तीसवीं (31वीं) वार्षिक आ बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। 31वें एजीएम केनोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों केसंचालन केलिए आईएसटी 401 स्टारलिट टॉवर, 4थी मंजिल, 29, वाईएन रोड, इंदौर – 452003, मध्य प्रदेश, भारतासेबी केपरिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है। जिनके ईमेल पते बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को केपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.premcapitd.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट यानी www.evoling.nsdl.com पर।एमसीए परिपन्नों के आलोक में, शेयरशारक चाहेडीमेंट रूप में य भौतिक रूप में इकिटी शेयर रखते हों और जिन्होंने अपने ईमेल पते जमा नहीं किए हैं और परिणामस्वरूप जिन्हें 31वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की सूचना नहीं दी जा सकी है, उन्हें अस्थायी रूप से मुगतान किया जा सकता है। उनके ई-मेल पते कंपनी केसाथ पंजीकृत करवाएं जहां (1) यदि शेयर मौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरघारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कून की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (स्व–सत्यापित) प्रदान करें PAN कार्ड की स्वै न की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन की गई कॉपी) ईमेल द्वारा compliance.premiumgmail.com पर; (2) यदि शेयर डीमेट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंक लामार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति) प्रदान करें। कार्ड), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) व compliance.premium@gmail.com पर भेजें; या (3) वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (ए) या (बी) में उल्लिखित विवरण को साबित करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evolingnsdl.co.in पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकता है। ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद शेयरघारक को 3 1वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के नोटिस की सॉफ्ट कॉपी और ई-शयरधारक का 3 fवा एजाएम आर वााषक ।रपाट 2022-23 क नाटिस का सापट कापा आर इ-वोटिंग के लिए सक्षम करने के लिए यूजर-आईडी और पासवर्ड के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया मिलेगी। 3 fवीं एजीएम के संबंध में, किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक कंपनी को compliance.premiumgmail.com पर लिख सकतेहैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेज जमा करकेअपने संपूर्ण बैंक विवरण और ईमेल आईडी को अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पुंजीकृत/अपडेट क्रूरें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 23 सितंबर 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। बंद न किया जाए. जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्जू हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का भी लाभ उठाने के हकदार होंगे। पोल पेपर केमाध्यम सेएजीएम में मतदान केरूप में। कैपर्न अधिनियम, 2013 की धारा 108 केप्रावधानों के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमें (संशोधित) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (संशोधित) केविनियमन 44 और उपर्युत्त एमसीए परिपत्रों केप्रावधानों केअनुसार, कंपनी रिमोट की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम में कि जाने वाले व्यवसायों केसंबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग। इस उद्देश्य से, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ एक समझौता किया है। सदस्या द्वार रेमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के माध्यम से पारित किए गए प्रस्तावों को पारित माना जाता है जैसे कि उन्हें एजीएम में पारित किया गया हो। रिमोट ई-वोटिंग सुबह 9:00 बजे शुरू होगी। मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 कोशाम 5:00 बजे समाप्त होगा। गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को। इस अवधि दें वीरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखने वालें कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और . समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल कोअक्षम कर दिया जाएगा और एक बार् सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दें जाएगी; और बी) जिन सदस्यों ने3 1वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, व भी 3 1वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं , लेकिन दोबारा बोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोर्ट ई बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 3 1वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दी गई है।कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी वे

स्थान : इन्दौर दिनांक : 6 सितम्बर 2023

वास्ते : प्रीमियम केपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मनीषा सुदीप भट्टाचार्यं, होलटाईम डायरेक्टर

श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

CIN: L01111MP2017PLC044596 ,वेबसाईट : www.oswalseeds.com पंजीकृत कार्यालय : ओसवाल हाउस, बालकवि बैरागी कॉलेज के सामने न्सिराबाद हाईवे, गाँव — कृनावटी, नीमच — 458441 (म.प्र.)

फोन : 07423 -297511 ई-मेल : oswalgroups2002@gmail.com वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली

06वीं वार्षिक साधारण समा, पुस्तक बंद तथा ई—वोटिंग जानकारी की सूचन यह हमारे द्वारा पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के समाचार प प्रकाशन की निरंतरता में है जिसके अंतर्गत श्री**ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड** (''कंपनी'') के सदस्यों क मूचित किया गया था कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए परिपत्रो जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिव उपस्थिति के बिना VC/DAVM के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं के अनुसा सदस्यों की 06वी वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") को शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को दोपहर 02:00 (''आई.एस.टी''), आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'') / अन्य ऑडियो विसुअल मीन्स (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा ०६वी एजीएग सूचना में दिए गए व्यवसायों को लेन —देन करने का निश्चय किया है। एमसीए और सेबी परिपत्रों ने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों की छपाई और प्रेषण के संबंध में कंपनियों को छट प्रदान की है।

एमसीए परिपन्नो तथा सेबी परिपन्नो के अनसार जिन सदस्यों के ई—मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या सम्बंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत है, उन्हें ई—वोटिंग के साथ वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 06वी एंजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया के विवरण के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथ 06वी एजीएम की सूचना बुधवार, 06 सितम्बर, 2023 को ई—मेल के माध्यम से भेजी गई है। यह सभी जानकारियाँ कंपनी की वेबसाइट (www.oswalseeds.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ''सीडीएसएल'') (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार एतद द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार 25 सिंतम्बर 2023 से शनिवार 30 सितम्बर 2023 (दोनों दिवस शामिल) तक, 06वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धार 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी ने 06वी एजीएम सूचना में दिए संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम र मतदान के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेंज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों

के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं: – ए.जी.एम. कि सूचना में निर्दिष्ठ व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया

दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : बुधवार 27 सितम्बर 2023 प्रातः 9

दुरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय : शुक्रवार 29 सितम्बर 2023 सांय 5 बजे तक।

निर्णायक तिथि : शनिवार 23 सितम्बर 2023 यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी कि सदस्यता अर्जित करते है

तथा निर्णायक तिथि को शेयर धारित करते है उस परिस्थिति में वह 06वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते शुक्रवार 29 सितम्बर 2023 सांय 5.00 बजे के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग

कि अनुमति नहीं होगी। ई-मतदान सुविधा शाम 5.00 बजे के पश्चात तत्काल बंद कर दी

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वही सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से सभा में अपने अधिकार का उपयोग करने

कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते है, लेकिन सभा में उन्हें दोबारा मतदान करने कि अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपाजिटरी पार्टीसिपेंस (डीपी) के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ वार्षिक आम सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान किए जाने के पश्चात मतदान परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायगी ।

06वीं एजीएम कि सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 कि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी कि वेबसाइट www.oswalseeds.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, सिनियर मेनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन पयचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल नंबर 1800225533 पर कॉल

बोर्ड के आदेश से श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड हस्ते / -दिलीप पाटीदार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ए.सी.एस. 34566 दिनांक : 07 सितम्बर, 2023

